



पुरस्कृत होंगे सर्वश्रेष्ठ कर्मी

12/3/2010

पटना: राज्य सरकार ने समाहरणालय व उससे संबद्ध कार्यालयों व प्रखंड स्तर के कार्यालयों की कार्य संस्कृति में सुधार लाने का निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दिया है. इसमें उत्कृष्ट कार्य करनेवाले कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार देने तथा लापरवाही बरतनेवाले अधिकारियों को दंडित करने का निर्णय लिया गया है. इतना ही नहीं, सरकार ने निचले स्तर के कार्यालयों में पब्लिक डिलिवरी सिस्टम को विकसित करने का निर्णय लिया है.

प्रधान सचिव ने सभी डीएम को लिखा पत्र

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने गुरुवार को सभी डीएम को पत्र लिख कर कार्य संस्कृति में सुधार लाने के लिए कहा है. पत्र में कहा गया है कि कार्य के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार व प्रमाणपत्र देने के लिए कहा गया है.

सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को 500 रुपये का पुरस्कार व प्रमाणपत्र देने का प्रावधान है. इधर कार्य संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से पब्लिक डिलिवरी सिस्टम को विकसित किया जायेगा ही, साथ में कर्मचारियों की पंचुअल रखने पर जोर दिया गया है.

हर सोमवार को बनेगी योजना

इसके लिए प्रत्येक सोमवार को जिला पदाधिकारी व कार्यालय प्रमुखों, प्रधान सहायकों व लिपिकों के संग बैठक करेंगे तथा सप्ताह भर की कार्य योजना बनायेंगे. इसके लिए विस्तृत समय सारिणी निर्धारित कर दी गयी है.

प्रधान सहायक लिपिक के साथ पूर्वा: 10.30 बजे, साढ़े 11 बजे पदाधिकारियों के संग प्रधान सहायक की तथा दोहर एक बजे जिला पदाधिकारी की अधिकारियों के संग बैठक होगी. प्रत्येक गुरुवार को पूर्वा: 10.30 बजे जिला पदाधिकारी कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे.

हाइट बोर्ड पर दर्ज होगी उपस्थिति

इसके अतिरिक्त सचिवालय के तर्ज पर सभी कार्यालयों में हाइट बोर्ड लगाने व उसमें समय से पहले और

लेट आनेवाले कर्मचारियों का समय दर्ज किया जायेगा. उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुख व प्रधान सहायक को दी गयी है. जो समय से पहले आयेंगे उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की जायेगी.